

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) म०प्र० भोपाल

क्रमांक/उत्पा/निस्तार/35/1455

भोपाल दिनांक 20.4.2007

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय:- शमशान घाटों के लिये जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था बाबत ।

---00---

शमशान घाटों के लिये जलाऊ लकड़ी की पर्याप्त मात्रा एवं अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी उपलब्ध कराना विभाग का एक परम आवश्यक कर्तव्य है । कुछ विश्राम घाटों से शिकायत आयी है कि जलाऊ लकड़ी कभी-कभी उन्हें वन विभाग से उपलब्ध नहीं होती है, अतः माननीय वन मंत्रीजी द्वारा निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश के समस्त विश्राम घाटों पर अच्छी गुणवत्ता की जलाऊ लकड़ी नियमानुसार डिपो में समय से उपलब्ध रहे । यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि बरसात के समय के लिये समय पूर्व व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावे ।

शमशान घाट के लिये जलाऊ लकड़ी प्रदाय की दरों की गणना में परिवहन पर हुये व्यय को भी शामिल किया जाता है । अतः वन संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निकटतम डिपो से ही जलाऊ लकड़ी का परिवहन शमशान घाट के लिये प्रदाय हेतु किया जावे, जिससे परिवहन पर कम से कम व्यय हो तथा शमशान घाट के लिये प्रदाय की दरें भी कम से कम रखी जा सकें । अतः भविष्य में शमशान घाट के लिये नियमानुसार न्यूनतम दरें एवं अच्छी गुणवत्ता की जलाऊ लकड़द पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

सही-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म०प्र०, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/उत्पादन/निस्तार/80/1456

भोपाल, दिनांक 20-4-2007

- प्रतिलिपि:-1. निज सचिव मा.वन मंत्रीजी म०प्र० शासन को सूचनार्थ प्रेषित । कृपया माननीय वन मंत्रीजी को अवगत कराने का कष्ट करे ।
2. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म०प्र० भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित । कृपया प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराने का कष्ट करें ।

सही-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म०प्र०, भोपाल